



NEERAJ®

आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास : जापान (C.1868-1945)

(History of Modern East Asia: Japan (C.1868-1945))

B.H.I.E.- 142

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Ved Prakash Sharma



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास : जापान (c.1868–1945)

(History of Modern East Asia: Japan (C.1868-1945))

Question Paper—June-2024 (Solved)	1
Question Paper—December-2023 (Solved)	1
Question Paper—June-2023 (Solved)	1
Question Paper—December-2022 (Solved)	1
Question Paper Exam Held in July 2022 (Solved)	1
Sample Question Paper-1 (Solved)	1
Sample Question Paper-2 (Solved)	1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
1.	आधुनिक जापान का मूल आधार (The Roots of Modern Japan)	1
2.	प्रारंभिक आधुनिकता : तोकुगावा काल 1600–1868 (Early Modernity: The Tokugawa Period 1600-1868)	13
3.	मेजी पुनर्स्थापना और आधुनिक जापान का निर्माण (The Meiji Restoration and the Creation of Modern Japan)	23
4.	मेजी राजनीतिक व्यवस्था (The Meiji Political Order)	35
5.	सभ्यता और ज्ञानोदय : एक नयी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण (Civilization and Enlightenment: Creating A New Social Order)	46
6.	मेजी औद्योगीकरण और विकास (Meiji Industrialization and Development)	57

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
7.	अन्य स्वर : मेजी नीतियों का विरोध (Other Voices: Opposition to Meiji Policies)	69
8.	मेजी जापान : अंतर्राष्ट्रीय समानता की तलाश (Meiji Japan: Seeking International Equality)	80
9.	एक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान का उदय (Japan's Emergence as an Economic Power)	91
10.	शाही जनतंत्र और राजनीतिक दल (Imperial Democracy and Political Parties)	102
11.	सैन्यवाद का उदय (Rise of Militarism)	112
12.	जापान : पश्चिम के विरुद्ध औपनिवेशिक विरोधी आंदोलनों को समर्थन (Japan: Supporting Anti-colonial Movements Against The West)	124
13.	जापान का औपनिवेशिक साम्राज्य और उसकी पराजय (Japan's Colonial Empire and its Defeat)	134
14.	जापान : पराजय और मित्र-राष्ट्रों का नियंत्रण (Japan: Defeat and the Allied Occupation)	145



**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**
www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास :
जापान (C.1868-1945)

B.H.I.E.-142

(History of Modern East Asia: Japan (C.1868-1945))

समय : 3 घण्टे /

/ अधिकतम अंक : 100

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड में से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग-I

प्रश्न 1. मेजी पुनर्स्थापना तथा आधुनिक जापान के निर्माण में इसकी भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-3, पृष्ठ-24, ‘मेजी पुनर्स्थापना की दिशा में कदम’, पृष्ठ-25, ‘मेजी पुनर्स्थापना, 1868 का महत्व, कुछ जापानी मत’, पृष्ठ-28, प्रश्न 4

प्रश्न 2. शिक्षा के क्षेत्र में जापान द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों की चर्चा कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-5, पृष्ठ-55, प्रश्न 4

प्रश्न 3. मेजी काल में आधुनिकता का क्या प्रभाव था? मेजी काल के कुछ निरंकुश विचारों के प्रति विरोध का परीक्षण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-7, पृष्ठ-75, प्रश्न 4

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

(क) जापानी इतिहास का कालक्रम

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-1, पृष्ठ-2, ‘जापानी इतिहास में कालावधिकरण’

(ख) फुकुजावा यूकीची

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-5 पृष्ठ-48, प्रश्न 1

(ग) जापान में ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-3 पृष्ठ-26, प्रश्न 2

(घ) तोकुगावा जापान की संस्कृति

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-2, पृष्ठ-14, ‘तोकुगावा जापान में संस्कृति’

इसे भी जोड़ें—शहरी केन्द्रों का बढ़ना तोकुगावा की अर्थव्यवस्था के गतिशील होने का सकेत देता है। 18वीं शताब्दी का अंत होते-होते राजधानी इदो की आबादी लगभग दस लाख हो गयी थी। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दस्तकार और दुकानदार यहां आकर और आसाका, क्षेत्रों जैसे दूसरे शहरों या कनार्जुवा, सेंदाई, कगोशिमा जैसे दुर्ग कस्बों में जाकर बस गये, जिनकी आबादी 50,000 से भी ऊपर थी। सोकाइट्स (पूर्वी समुद्री सड़क), नाकासेंदों (पर्वत के मध्य की सड़क), सान्योदों (पर्वतों की धूप वाली तरफ की सड़क) और सनिदों (पर्वत की छाँव

वाली तरफ की सड़क) जैसी सड़कों के बनने से व्यापार में बेहतरी आयी।

उभरने वाली शहरी संस्कृति बुनियादी तौर पर व्यापारियों के नेतृत्व वाला आंदोलन था। व्यापारियों (शोनिन) को वैसे तो दूसरों पर निर्भर रहने वाले या परजीवियों के रूप में नीची निगाह से देखा जाता था, लेकिन वे ही जापान के पहले उद्यमी थे। वे कठिन परिश्रम करते थे और उन्होंने एक जीवंत सामाजिक व्यवस्था को विकसित करने में योगदान दिया। उदाहरण के तौर पर, 1627 में, एक मिस्त्रुई तोशित्यूगा ने इचीगाया के नाम से इदो में एक वस्त्र की दुकान खोली जो बढ़ते-बढ़ते आज मित्सुकाशी के नाम से मित्सुई कंपनी की है।

भाग-II

प्रश्न 5. युद्ध पूर्व जापान में राजनीतिक प्रजातंत्र की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-10 पृष्ठ-102, ‘राजनीतिक दलों की स्थापना’

प्रश्न 6. जापानी राज्य में नस्ल, राष्ट्रवाद तथा सभ्यता मिशन की अवधारणा की चर्चा कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-8, पृष्ठ-80, ‘परिचय’, पृष्ठ-81, ‘सभ्य बनाना : नस्ल का विचार’

प्रश्न 7. द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जापान के तीव्र आर्थिक विकास के कारणों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-14, पृष्ठ-149, प्रश्न 4

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

(क) चीन के साथ जापान का युद्ध

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-8, पृष्ठ-82, ‘जापान का चीन के साथ युद्ध और राष्ट्रवाद’

(ख) जन-अधिकार आन्दोलन

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-4, पृष्ठ-39, प्रश्न 5

(ग) जाईबत्सू

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-9, पृष्ठ-99, प्रश्न 1

(घ) अखिल एशियावाद

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-5, पृष्ठ-48, ‘अखिल एशियावाद’



QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास :
जापान (C.1868-1945)

B.H.I.E.-142

(History of Modern East Asia: Japan (C.1868-1945))

समय : 3 घण्टे /

/ अधिकतम अंक : 100

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग में से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग - I

प्रश्न 1. तोकुगावा दाईम्यो हान व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-13, 'तोकुगावा दाईम्यो हान प्रणाली' तथा पृष्ठ-16, प्रश्न 1

प्रश्न 2. मेर्झी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-37, 'मेर्झी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति'

प्रश्न 3. जापान की पूर्व-आधुनिक अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं और मेर्झी काल में उसके रूपांतरण का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-6, पृष्ठ-57, 'मेर्झी पुनर्स्थापना एवं अर्थव्यवस्था', 'आर्थिक विकास का प्रारंभिक दौर'

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) जापानी इतिहास के अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ-5, प्रश्न 2

(ख) तनका शोजो और हिसाबेस्टिन बुराकू के विचार

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-7, पृष्ठ-72, प्रश्न 1 तथा पृष्ठ-78,

प्रश्न 1

(ग) आइनू पत्रकारिता का उदय

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-7, पृष्ठ-71, 'आइनू पत्रकारिता का उदय'

इसे भी देखें-1989 के होकाइडो पूर्व मूल निवासी संरक्षण अधिनियम का आधार यह था कि 'पूर्व मूल निवासी', 'समान शाही प्रजा' थे फिर भी 'श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता (Survival of the Fittest) के सिद्धांत के अनुसार, वे अपने जीवन जीने की

क्षमता खो चुके थे, इसलिए उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। यह योजना वास्तव में उस योजना के समान थी, जिसने कहा कि वे 'जापानी नागरिक' हैं, लेकिन 'समान' नहीं है, इसलिए उन्हें कल्याण के माध्यम से सामाजिक रूप से उन्नत किया जाना चाहिए।

(घ) ट्रेड यूनियनों का विकास

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-6, पृष्ठ-58, 'मजदूर संघों का विकास'

भाग - II

प्रश्न 5. जापान में दण्ड विधि (Criminal law) और जेल सुधारों की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ-83, प्रश्न 1

प्रश्न 6. 1930 के पश्चात् जापान में सैन्यीकरण में वृद्धि का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-11, पृष्ठ-120, प्रश्न 1

प्रश्न 7. विश्व युद्ध के बाद की राजनीतिक व्यवस्था तथा उदारवादी प्रजातात्रिक पार्टी की प्रधानता की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-14, पृष्ठ-155, प्रश्न 4

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) 1918 के चावल दंगे (Rice Raids)

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-9, पृष्ठ-101, प्रश्न 3

(ख) साम्यवादी पार्टी का गठन

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-10, पृष्ठ-109, प्रश्न 2

(ग) जापानी साम्राज्यवाद की विशेषताएँ

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-13, पृष्ठ-138, प्रश्न 2

(घ) जापान और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA)

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-12, पृष्ठ-129, प्रश्न 3



Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास : जापान (1868-1945)

(History of Modern East Asia: Japan (C.1868-1945))

आधुनिक जापान का मूल आधार

(The Roots of Modern Japan)



परिचय

यह अध्याय उस पृष्ठभूमि से संबंधित है, जो हमें आधुनिक जापान के इतिहास को समझने में मदद करेगी। हम पूर्वी एशियाई क्षेत्र के भीतर जापान के बारे में और भौगोलिक वातावरण की कुछ विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। जापान के इतिहास को जानने के लिए जापान के पक्ष में चार मुख्य कारक थे, जिन्होंने देश के आधुनिकीकरण को तेज किया। जापान का द्वीप भूगोल, एक

केंद्रीकृत सरकार, शिक्षा में निवेश और राष्ट्रवाद की भावना। ये सभी ऐसे कारक थे, जिन्होंने जापान को आधी शताब्दी से भी कम समय में आधुनिक बनाने की अनुमति दी। अपने स्वयं के आधुनिकीकरण पर नियंत्रण करके, नया मेजी शासन अपनी शर्तों पर पश्चिमीकरण कर सकता है, जो सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं को जारी रखने की अनुमति देगा। पूर्वी एशिया के विदेशी देशों के साथ संबंधों में पश्चिमी भागीदारी के अतिक्रमण के बीच मेजी की पुनर्स्थापना हुई। मेजी बहाली के तहत लागू किए गए परिवर्तनों की जाँच करके हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि जापान कैसे इतनी जल्दी आधुनिकीकरण हासिल करने में सक्षम था।

अध्याय का विहंगावलोकन

पूर्वी एशिया और इसके पड़ोसी

भौगोलिक रूप से, ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ यह हैं कि जापान चार मुख्य द्वीपों और अन्य छोटे द्वीपों से बना है, जो भौतिक रूप से महाद्वीपीय मुख्य भूमि से अलग थे, लेकिन इसके प्रभावों से अलग नहीं थे। जापान और मुख्य भूमि के बीच एक समुद्री संबंध था। जापानी द्वीपों में लोगों, विचारों और व्यापार के

प्रवेश के लिए कोरियाई संबंधों को भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। पूर्वी चीन सागर को पार करना खतरनाक था, जो सीधे संपर्क और चीन द्वारा आक्रमण की संभावनाओं से अछूता था, जो इस क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति थी। समुद्री मार्ग जापानी द्वीपों को दक्षिण-पूर्व एशिया से भी जोड़ते थे। चीन ने पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में भी एक शक्तिशाली प्रभाव डाला। चीनी लोगों की भाषा, विचार और धार्मिक विश्वास जापान, कोरिया और वियतनाम में अनुकूलित किए गए थे।

जापान : भौगोलिक वातावरण

2-5 मिलियन वर्ष पूर्व द्वीपों का निर्माण हुआ है, जो चार टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से उत्पन्न हुए थे। इसके कारण कई भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। एक अस्थिर स्थिति थी, जिसके कारण समय-समय पर आपदाएँ आती थीं, जिससे निवासियों को इन आवर्ती आपदाओं का अनुमान लगाने और उनका सामना करने के लिए सीखने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हिमयुग के हिमनदों ने पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया और चूँकि जापानी द्वीपसमूह विभिन्न अवधियों में महाद्वीपीय मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस क्षेत्र के जैविक धन से इसे लाभ हुआ है। जापान प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। जापान का भूभाग 80% पहाड़ों की ओसत ऊँचाई 2 से 3,000 मीटर और बहुत खट्टी है। इन पहाड़ों के आर-पार नदियाँ कटी हुई हैं, जिससे जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और परिष्कृत जल प्रबंधन तकनीकों का विकास हुआ है। कृषि का विकास मैदानी इलाकों तक ही सीमित था, इसने वनारोपण की भावना उत्पन्न की। देश की जलवायी परिस्थितियाँ मुख्य रूप से हल्की सर्दियाँ और गर्मियाँ हैं। तट के साथ जलोद मैदानों में सिंचित चावल की खेती प्रमुख मानी जाती है।

2 / NEERAJ : आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास : जापान (1868-1945)

जापानी इतिहास के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण

ऐसे कई संसाधन हैं, जिन्होंने जापान के ऐतिहासिक विकास को देखा है, जैसे-पश्चिमी मिशनरी खाते, जापानी लेखन और विशेष रूप से अमेरिकी विद्वानों के एक अन्य स्रोत। 'क्षेत्र अध्ययन' दृष्टिकोण है, जिन्हें द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की अवधि में अमेरिका में विकसित किया गया था और यह इस विचार पर आधारित था कि एशिया के देश अलग थे और उन्हें अपने समाजों को समझने के लिए दुभावियों की जरूरत थी। ऐसी कई पौराणिक कथाएँ हैं, जो देश के बारे में भी बताती हैं। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि द्वीपों को देवताओं ने बनाया था और सूर्य देवी ने अपने पोते को देश पर शासन करने के लिए भेजा था। जापान को चीन और अन्य देशों से अलग और श्रेष्ठ रूप में चिह्नित करने के लिए आधुनिक काल में भी मिथकों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे कई स्रोत हैं जो जापान को आधुनिकीकरण करने वाले एकमात्र एशियाई देश के रूप में चित्रित करते हैं। पूर्वी एशियाई क्षेत्र में चीन और चीनी संस्कृति का बहुत प्रभाव था, जिसका अर्थ है कि चीनी प्रभाव ने इस क्षेत्र को स्वरूप प्रदान किया और चीनी भाषा सभ्यता की वाहक और अभिजात वर्ग की भाषा बन गई। जापान ने चीनी भाषा को भी अपनाया और जापानी भाषा एक बहु-अक्षर और संयुक्त भाषा है और चीनी से बहुत अलग है।

जापानी इतिहास में कालावधिकरण

ऐसे कई सबाल हैं, जो सत्तारूढ़ राजवंशों द्वारा जापानी इतिहास के प्रमुख राजनीतिक वर्गीकरण द्वारा उठाए गए हैं। मानक राजनीतिक विभाजन हियान (794-1180) का शास्त्रीय काल है, जिसने अपनी प्रमुख विशेषताओं के साथ जापानी सभ्यता को दर्शाया। शाही सरकार हियान काल में प्रमुख शक्ति मानी जाती थी, जिसके बाद योद्धा सरकारों की शाही सत्ता बहाल हुई। 1573 से 1603 तक, दाइम्यों घरानों का उदय हुआ, जिन्होंने जापान के बड़े भाग को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उस समय के सैन्य संघर्षों के दाइम्यों के बीच सबसे पहले उभरने वाला रूप ओड़ा नोबुनागा था, जिसके बाद तोयोतोकी हिदेयोशी और उसके बाद तोकुगावा इयसु थे, जिन्होंने तोकुगावा शासन का गठन किया, जो 1603 से 1868 तक चला। यह जापान में अवधिकरण का व्यापक वर्गीकरण है।

एक महत्वपूर्ण स्रोत जो जापानी इतिहास के बारे में बताता है वह परिस्थितिकी है, जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच प्रमुख संबंध को दर्शाती है। जापान के इतिहास को इतिहासकार कॉनराड टोटमैन ने तीन चरणों में विभाजित किया है- भोजन के लिए घुमन्तू, कृषि तथा औद्योगिक। भोजन के लिए घुमन्तू चरण लगभग 420 बी.सी.ई. तक रहा, जिसने जोमोन और यायोई संस्कृतियों को शामिल किया। कृषि चरण कृषि के उपयोग से चिह्नित था, जो हियान राजवंश से शुरू होकर 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। औद्योगिक अवधि लगभग 1890 से औद्योगिक समाज के विकास

के साथ शुरू होती है, जो 'मृतकों के कारनामों' पर विकसित होता है।

शास्त्रीय जापान का निर्माण

जापान का शास्त्रीय युग 794 में शुरू हुआ, जब यामातो राज्य ने हियान में अपनी राजधानी बनाई। यह अवधि 794 से 1185 तक थी, जो कि सत्ता योद्धा सरकारों में स्थानांतरित हो गई। इस अवधि के दौरान चीनी प्रभाव, बौद्ध धर्म के माध्यम से, लोगों द्वारा अनुकूलित किया गया और फिर एक शाही राज्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जहाँ सम्राट् ने प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया। बौद्ध धर्म राजकीय धर्म बन गया और चीनी भाषा को अभिजात वर्ग द्वारा अपनाया गया। वह अवधि जिसे हियान काल कहा जाता है, जिसका नाम राजधानी के नाम पर रखा गया था, चीनी राजधानी छांगान पर आधारित थी। ऐसे कई नियम और विनियम थे, जिन्हें एक सैन्य संगठन बनाने के लिए विकसित किया गया था और सामूहिक रूप से कर संग्रह की एक प्रणाली जिसे रितसूर्यों (दंड संहिता और नागरिक संहिता) प्रणाली के रूप में जाना जाता था। ऐसे कई प्रांत थे, जिनमें देश का विभाजन किया गया था, जिन पर राज्यपालों का शासन था। इस अवधि में जिस क्षेत्र पर शासन किया गया था वह ज्यादातर क्योटो क्षेत्र और क्यूशू के दक्षिणी द्वीप में था, लेकिन सम्राट् शोमु ने मुख्य द्वीप होंशू के उत्तरी क्षेत्र तोहकू में सेना भेजना शुरू कर दिया और 1725 तक इस क्षेत्र को आधुनिक समय के सेन्दाई तक शांत कर दिया। इस सिद्धांत को हर किसी ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि एमीशी जोमोन संस्कृति के लोग थे, जिन्हें उत्तर की ओर धकेल दिया गया था तथा यायोई लोगों ने जापान के मुख्य द्वीपों पर कब्जा कर लिया था।

सी. केमरन हर्स्ट जैसे विद्वानों ने घोषणा की कि हियान काल को दो अवधियों में विभाजित किया जाना चाहिए, दसवीं शताब्दी तक की प्रारंभिक अवधि जब तांग मॉडल के तत्व प्रभावी थे, लेकिन सामंती प्रवृत्ति विकसित होने लगी थी और दूसरा भाग, जिसमें इन सामंती विशेषताओं को मजबूत होते देखा गया। ऐसे कई विद्वान हैं जिनका मत था कि सम्राट् और कुलीन वर्ग ने अपनी शक्ति को बाहरी हितों के लिए आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि कुलीनों ने एक शाही दरबार राज्य का निर्माण किया, जिसके तहत उन्होंने अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ राजनीतिक कर्तव्यों का अनुबंध किया।

हियान काल की संस्कृति-हियान संस्कृति ने अत्यधिक परिस्कृत सौंदर्य दर्शन का निर्माण किया। इस काल में भौतिक जीवन अत्यंत सरल और तपस्वी था। लोग चावल, सब्जियां खाते थे और बहुत कम मास या मछली खाते थे। चाय का उपयोग मुख्य रूप से दवा के रूप में किया जाता था और बैलगाड़ी परिवहन का प्रमुख साधन था। राज्य का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म था और शिन्तो बौद्ध धर्म का एक भाग बन गया था, जो पहले की लोकप्रिय धार्मिक प्रथाओं का पूरा समुच्चय था।

आधुनिक जापान का मूल आधार / 3

साइको की शिक्षाएं लोटस सूत्र पर आधारित थीं, जिसका अर्थ था कि कार्य, ध्यान और विश्वास से ज्ञान प्राप्त हुआ। ये संप्रदाय नौवीं और दसवीं शताब्दी के दौरान विकसित हुए और हेनियन अभिजात वर्ग के बीच उनका पक्ष लिया। कुछ नए आंदोलन थे जो इस अवधि के दौरान विकसित हुए, जैसे—जैन, जोड़ो और निचीरेन आदि।

प्रतिस्पर्धी शक्तियाँ : सम्राट, धार्मिक समूह और योद्धागण

शाही राज्य की शक्ति अधिक समय तक नहीं रही क्योंकि इसने धीरे-धीरे भूमि और कुलीन परिवारों और बौद्ध मठों को राजस्व एकत्र करने का अधिकार दे दिया। कुलीनों और बौद्ध मठों ने भूमि सम्पदा पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और करों को एकत्र किया तथा अपनी सेनाएँ खड़ी कीं और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन गए। शाही राज्य का कोई नियंत्रण नहीं रह गया था और 1150 तक अपने नेताओं के प्रति वफादारी के कारण समुराई या योद्धा समूहों का उदय हुआ। समूहों को एक श्रेणीबद्ध तरीके से संगठित किया गया था और वे अपने नेताओं के प्रति रिश्तेदारी और वफादारी से बंधे थे।

जापानी विद्वान कुरोदा तोशियो के अनुसार, 11वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य सत्ता को एक साथ काम करने वाली तीन शक्तियों में विभाजित किया गया था। कुरोदा द्वारा पहचाने गए परिवारों के तीन समूह थे—दरबारी (कुरो), योद्धा (बुके या समुराई) और धार्मिक संस्थान (जिशा)। इन तीनों समूहों को एक राजनीतिक व्यवस्था के अंग के रूप में देखा गया। विद्वानों का मत था कि कामकुरा काल हियान काल से एक संक्रमण था और एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब केन्मू शासन और आशिकामा ने एक नए प्रकार का शासन शुरू किया।

दाइम्यों ने अपने नियंत्रण का विस्तार करने के बजाय अपने शासन को सशक्त करने पर ध्यान दिया। ऐसे नेताओं का उदय हुआ, जो जापान को एकजुट करेंगे। धार्मिक संस्थान राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और राजनीति आधुनिक काल की तरह अलग तत्व नहीं थी। कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र क्योटो के पास माउंट हाईट्स में थे, जो तेंदाई संप्रदाय से संबंधित थे, नारा जहाँ कोफुकुजी और टोडाईजी के प्रमुख मंदिर स्थित थे और उन संप्रदायों का प्रभुत्व था। जो अधिक दार्शनिक थे और अभिजात वर्ग और माउंट कोया से अपील करते थे। जैन तथा बौद्ध धर्म दो संप्रदायों सोटो और रिनजाई में विभाजित था, जिसे कोअन या पहेलियों के रूप में अभ्यास की मदद से कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदान किया गया था, जिसने अनुयायियों को उनकी धारणाओं के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया।

दाइम्यों का उदय : ओड़ा नोबुनागा

15वीं शताब्दी के अंत से युद्ध लगातार होते रहे। वहाँ सरकार प्रतिस्पर्धी रूपों में थी और शाही घराने हाशिए पर थे। सामंती

संबंधों से बंधे समुराई अनुचर वे प्रमुख ताकतें थीं, जो सत्ता और प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धी करती थीं। इक्को समूह धार्मिक समूह थे, जो समुराई की तरह समानता और पदानुक्रम के सिद्धांतों पर आधारित थे। इस अवधि में अर्थव्यवस्था और संस्थानों में वृद्धि देखी गई, जिन्होंने कुछ हद तक परिष्करण विकसित किया। स्थिति अस्थिर थी और तीन व्यक्तित्व जो धीरे-धीरे मुख्य द्वीपों को अपने नियंत्रण में लाए थे—ओड़ा नोबुनागा (1543-82), तोयोतोमी हिदेयोशी (1537-98) तथा तोकुगावा इयासु (1543-1616)। 1568 में, ओड़ा नोबुनागा ने सम्राट को आशिकामा योशिअकी (1537-1597) को मान्यता के लिए मजबूर किया और फिर जब शोगुन ने विघ्नकरी साबित कर दिया तो उसे बाहर निकाल दिया। नोबुनागा ने बड़े क्षेत्रों और दाइम्यों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। नोबुनागा ने अक्टूबर 1571 में हिजेन के तेंदाई बौद्ध मठ को नष्ट कर दिया। नोबुनागा ने बौद्ध धर्म के जोड़े शिंशु संप्रदाय के सशस्त्र लोगों से भी लड़ाई लड़ी, ओसाका में इशियामा होंगानजी के मंदिर के आसपास केंद्रित इक्को-इक्की से भी लड़ाई लड़ी और उन्हें कुचल दिया। नोबुनागा योद्धाओं या समुराई को किलेबंद कस्बों में ले आया, जो उभरते शहरों के केंद्र का निर्माण करने वाले थे। इससे सैन्य जमींदार अभिजात वर्ग की स्वतंत्र शक्ति में कमी आई। उन्होंने बाट और माप में एक रूपता लाने का भी प्रयास किया।

हिदेयोशी : एक सामान्य जन जो जापान का शासक बन गया

वर्ष 1582 में नोबुनागा की हत्या कर दी गई और फिर हिदेयोशी (1536-1598) जापान को एकजुट करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरा। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन अपनी क्षमताओं के माध्यम से देश का शक्तिशाली शासक बन गया और शिबाता काटसुई जैसे अन्य दाइम्यों दावेदारों को हरने में कामयाब रहा और 1585 में सम्राट ने खुद को कमपाकू (राज्य संरक्षक) नियुक्त किया। 1588 में उन्होंने किसान को सैनिक से स्पष्ट रूप से अलग करने के उद्देश्य से एक क्रूर तलवारबाजी आखेट शुरू किया। जिस वर्ग को तलवार ले जाने की अनुमति थी, वह समुराई था। वर्ष 1590 में एक भूमि सर्वेक्षण में मुक्त कृषक के नाम पर खेतों को दर्ज किया गया, इससे भूमि के मालिक और करों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की स्पष्ट रूप से पहचान हो गई। हिदेयोशी ने विश्व विजय का सपना देखा था, जिसने 1592 में कोरिया पर एक असफल आक्रमण शुरू किया था, लेकिन कोरियाई और चीनी से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उसे अपना आक्रमण रोकना पड़ा।

तोकुगावा की शक्ति का उद्भव

हिदेयोशी की मृत्यु के बाद, तोकुगावा इयासु सबसे मजबूत दाइम्यों था, जो किसी भी अन्य दाइम्यों से दोगुना बड़ा था। तोकुगावा इयासु नोबुनागा के समय से ही पूर्वी जापान में प्रमुख था और हिदेयोशी के साथ उसके संबंधों में कई उत्तर-चढ़ाव आए,

4 / NEERAJ : आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास : जापान (1868-1945)

लेकिन दोनों ने समझा कि टकराव उचित नहीं है। हिंदेयोशी की मृत्यु के बाद कायम किया ने अन्य दाइस्यों के साथ गठबंधन करके अपना वर्चस्व बनाया और उन्होंने 20 अक्टूबर, 1600 को शेकीगहरा के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्यों को हराया। तोकुगावा इयासु को 1603 में शोगुन नियुक्त किया गया था।

बर्बर लोगों या एमीशी को नियंत्रित करना

ऐनु पंद्रहवीं शताब्दी तक अपने क्षेत्रों को नियंत्रित करने में सक्षम थे, लेकिन सोलहवीं शताब्दी से तोहोकू क्षेत्र के शासकों ने होकाइडो नामक क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू किया। शासकों ने इयासु के शासन को स्वीकार कर लिया और अपना नाम बदलकर मात्सुमे रख लिया, जिससे दक्षिण होकाइडो में उनके किलेबंद शहर का नाम पड़ा। संघर्ष और बीमारी के कारण जनसंख्या कम हो गई और ईदो शासन मात्सुमे तक बढ़ा और मात्सुमे ने ऐनु के साथ संबंधों को मजबूत किया। ईदो और रयुकू द्वीपों के बाहरी क्षेत्रों के बीच संबंधों के पैटर्न का यही मॉडल स्थापित किया गया था।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. जापान को आकार देने में भौगोलिक पर्यावरण की भूमिका की संक्षिप्त चर्चा कीजिए।

उत्तर—जापान की पारंपरिक संस्कृति और प्रारंभिक इतिहास को आकार देने में भौगोलिक वातावरण द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। जापान की समशीतोष्ण जलवायु, प्रचुर मात्रा में वर्षा, और वर्तमान टोक्यो, नागोया और ओसाका के पास समुद्र जलोद्ध मैदान पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के पक्षधर थे। कभी-कभी अपने पूर्व इतिहास के दौरान, शायद यारोई अवधि (300 ईसा पूर्व-300 सीई) के दौरान, जापान ने चीन से सिंचित चावल कृषि की तकनीक को एशिया के अधिकांश हिस्सों में आयात किया।

इस विधि से धान की खेती करने के लिए धान के बीजों को छोटी-छोटी क्यारियों में बोया जाता है। फिर रोपाई को एक-एक करके तैयार धान के खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है। जबकि पौधे परिपक्व हो रहे हैं, उन्हें सिंचित रखा जाना चाहिए, लेकिन जैसे-जैसे चावल पकते हैं, खेतों को सुखा दिया जाता है। इसके बाद चावल को काटा जाता है। सिंचित चावल की खेती के लिए बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही तेज गर्म धूप की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए अपेक्षाकृत समतल, उपजाऊ भूमि, सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में और भरोसेमंद पानी की आपूर्ति और एक विश्वसनीय श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। जापानी संस्कृति आज भी उन मूल्यों और संस्थानों को दर्शाती है, जो जापान के प्रारंभिक कृषि संगठन से विकसित हुए हैं।

जापान एक शिमागुनी (द्वीप देश) है—जापानी द्वीपसमूह (द्वीप श्रृंखला) में चार मुख्य द्वीप हैं—होशी, शिकोकू, उशु और

होकाइडो और आसपास के हजारों छोटे द्वीप। यह एशियाई मुख्य भूमि के प्रशांत तट पर स्थित हैं। निकटतम बिंदु पर, मुख्य जापानी द्वीप भूमि से 120 मील दूर हैं। इसकी तुलना एक अन्य शिमागुनि, ग्रेट ब्रिटेन से करें, जो यूरोप से केवल 21 मील की दूरी पर, इंग्लिश चैनल के सबसे संकरे बिंदु पर है। जापानी द्वीपों का कुल भूमि क्षेत्र लगभग 142,000 वर्ग मील है। विशाल एशियाई मुख्य भूमि या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तुलना करने पर यह एक बहुत छोटा देश है, जहाँ यह एकल, हालाँकि बड़ा, लेकिन कैलिफोर्निया राज्य से छोटा है। यह तब और भी छोटा लगता है, जब आपको पता चलता है कि इसकी जमीन का कितना कम हिस्सा कृषि या आवास के लिए उपयोगी है।

जापानी द्वीप पहाड़ों से आच्छादित है, उनमें से अधिकांश भारी बनाच्छादित हैं और छोटी, तेज नदियों द्वारा क्रॉस किए गए हैं। केवल कुछ नदियाँ नौगम्य हैं। जापान की अपेक्षाकृत कम भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है, केवल लगभग 15 प्रतिशत, वही भूमि जो रहने के लिए भी सबसे उपयुक्त है। इसलिए जनसंख्या और कृषि के क्षेत्र एक साथ केंद्रित हैं।

जापान के द्वीप बहुत सुंदर और विविध हैं, लेकिन वे अविश्वासी भी हो सकते हैं। भूकंप और एक दोष के परिणामस्वरूप आम होते हैं, जो प्रशांत महासागर को धेरता है, जिससे उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी भूकंप आते हैं। वे जापान में अक्सर आते हैं, जितना उन्हें महसूस किया जाता है उससे अधिक बार होता है। कभी-कभी वे गंभीर नुकसान करते हैं। जापान के पहाड़ों में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों का 10 प्रतिशत हिस्सा है। माउंट फूजी, जापान का सबसे प्रसिद्ध पर्वत और इसके सबसे सुंदर और सम्मनित में से एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जो आखिरी बार 1707 में फूटा था। ज्वार की लहरें कभी-कभी समुद्र के नीचे के भूकंपों से उत्पन्न होती हैं और टाइफून कभी-कभी जापान से टकराते हैं, क्योंकि वे दक्षिण प्रशांत से उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हालाँकि, जापानी अपने खतरों की तुलना में अपनी भूमि की सुंदरता और समुद्र से अधिक प्रभावित हैं। हालाँकि इसकी स्थलाकृति कठिनाइयाँ पैदा करती हैं, लेकिन इसकी जलवायु अधिक उदार है। जापानी द्वीप समशीतोष्ण क्षेत्र में अधिकांश भाग के लिए हैं और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के समान अक्षांशों में उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं। उत्तर में लगभग 45 डिग्री से लेकर दक्षिण में लगभग 20 डिग्री तक। राजधानी, टोक्यो, संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजिल्स या वाशिंगटन के समान स्थिति में है।

लेकिन केवल अक्षांश और देशांतर ही ऐसी चीजें नहीं हैं, जो जलवायु को प्रभावित करती हैं। दक्षिण की ओर से कुरोशियो और त्सुशिमा जैसी महासागरीय धाराएँ, द्वीपों के प्रशांत पक्ष और कोरियाई जलडमरुमध्य के पास, विशेष रूप से दक्षिण की ओर गर्म करती हैं, जबकि ठंडी कुरील धारा, होकाइडो की ओर दक्षिण की ओर